

आजादी! - कमला भसीन

मिल बहने लेंगी - आजादी
मिल बच्चियां लेंगी - आजादी
हिंसा से लेंगी - आजादी
अत्याचार से लेंगी - आजादी
हम मौन से लेंगे - आजादी
बलात्कार से लेंगे - आजादी
आने-जाने की हो - आजादी
हंसने-गाने की हो - आजादी
सब कुछ कहने की हो - आजादी
निर्भय रहने की हो - आजादी
है प्यारा नारा - आजादी
हम सबका नारा - आजादी
नारी का नारा - आजादी

WE WOMEN WANT - AAZADI
OUR DAUGHTERS WANT - AAZADI
FROM ENDLESS VIOLENCE - AAZADI
FROM HELPLESS SILENCE - AAZADI
FROM PATRIARCHY - AAZADI
FROM ALL HIERARCHY - AAZADI
FOR BREATHING FREELY - AAZADI
FOR MOVING FREELY - AAZADI
FOR SINGING LOUDLY - AAZADI
FOR DANCING MADLY - AAZADI
FOR SELF-EXPRESSION - AAZADI
FOR CELEBRATION - AAZADI
WE NEED IT BADLY - AAZADI
WE LOVE IT MADLY - AAZADI
COME SAY IT LOUDLY - AAZADI